



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 25, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-7 (क०नि०)

संख्या 2/2022/363/सात-न्याय-7-2022-21-2010

लखनऊ, 16 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

सा०प०नि०-71

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा 22-ख की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सिफारिश पर नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिले के स्थायी लोक अदालत के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करती हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिला का नाम	स्थायी लोक अदालतों हेतु नाम निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम
1	2	3
1	गाजीपुर	श्रीमती परमशीला पत्नी स्व० शहाबू, निवासी राजदेवपुर देहाती, रसूलपुर, जिला गाजीपुर

आज्ञा से,
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2/2022-363/VII-Nyaya-7-2022-21-2010 dated, December 16, 2022:

No. 2 /2022-363/VII- Nyaya-7-2022-21-2010

Dated Lucknow, December 16, 2022

In exercise of the powers under clause (b) of sub-section (2) of section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987), the Governor on the recommendation of the State Legal Services Authority is pleased to nominate the person mentioned in column-3 of the Schedule below as member of the permanent Lok Adalat of the district mentioned in Column-2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of the person/persons nominated for permanent Lok Adalats
1	2	3
1	Ghazipur	Mrs. Paramshila wife of late Shahabu, Resident of Rajdevpur Dehati Rasulpur, District Ghazipur

By order,

PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1168 राजपत्र-2022-(1895)=599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० न्याय-2022-(1896)-100 प्रतियां -(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।